



राजस्थान सरकार
निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
चतुर्थ तल, नेहरु सहकार भवन, जयपुर।



<https://sipf.rajasthan.gov.in>

add.legal.sipf@rajasthan.gov.in

0141-2201350

Capacity Building Webinar - 2

Question Bank F.A.Q-11-12-2025

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
1	राज्य बीमा योजना में किस आयु तक अधिक कटौती की जा सकती है ?	55 वर्ष की आयु तक
2	मंगला पशु बीमा योजना के तहत एक पशुपालक एक जनाधार पर कितने पशुओं (संख्या) का बीमा करवा सकता है ?	वर्तमान में पशुपालक के एक जनाधार पर अधिकतम 02 गाय/भैंस, 10 बकरी/भेंड एवं ऊंट का बीमा किया जाता है।
3	मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को आवेदन कितने दिवस में करना होता है ?	दुर्घटना दिनांक (मृत्यु की स्थिति में मृत्यु दिनांक) के 90 दिवस की अवधि में।
4	पॉलिसी अवधि के मध्य में राजकीय सेवा में आने वाले कार्मिक समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (राज्यकर्म) योजना के तहत किस प्रकार बीमित हो सकते हैं ?	पॉलिसी अवधि के बीच में राजकीय सेवा में नवीन कार्यग्रहण करने वाले कार्मिक प्रो-रेटा आधारित प्रीमियम राशि अपने वेतन के माध्यम से अथवा ई-ग्रास चालान के माध्यम से इस विभाग को भुगतान कर योजना के तहत बीमित होते हैं। इस विभाग में प्रीमियम प्राप्ति की दिनांक से पॉलिसी की शेष अवधि तक ऐसे कार्मिक बीमित माने जायेंगे।
5	राज्य बीमा योजना में पॉलिसीधारक राज्य कर्मचारी वेतन खण्ड के अनुसार कितने प्रीमियम की कटौती करवा सकता है ?	निर्धारित स्लेब एवं निर्धारित स्लेब से दो स्टेप आगे तक
6	राज्य बीमा पॉलिसी पर कितने प्रकार के बोनस देय हैं और कौन-कौनसे ?	राज्य बीमा पॉलिसी पर 04 प्रकार के बोनस देय हैं 01. रिवर्सनरी बोनस 02. अन्तरिम बोनस 03. टर्मिनल बोनस 04. अतिरिक्त बोनस
7	नया बीमा ऋण किस स्थिति में देय नहीं होगा ?	01. पूर्व ऋण को दो वर्ष पूर्ण नहीं होने पर 02. पूर्व में स्वीकृत ऋण की पूर्ण कटौती नहीं होने पर
9	प्रावधायी निधि योजना किन नियमों के अन्तर्गत लागू हैं ?	राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम, 2021
10	राज्य बीमा योजना में मृत्यु दावा निस्तारित करते समय कितने और कौनसे बोनस देय होंगे ?	कुल तीन प्रकार के बोनस देय हैं, 01. रिवर्सनरी बोनस 02. अंतरिम बोनस 03. अतिरिक्त बोनस
11	प्रावधायी निधि योजना अन्तर्गत महिला अभिदाता के मामले में परिवार की परिभाषा में कौन-कौन शामिल है ?	पति, माता-पिता, बच्चे, अवयस्क भाई, अविवाहित बहनें, मृत पुत्र की विधवा एवं बच्चें और जहां पर माता-पिता जीवित नहीं हैं तो दादा-दादी

12	मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना से क्या अभिप्राय है एवं इसकी पात्रता हेतु मापदंड क्या है ?	यह राजस्थान सरकार की एक स्वेच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। जो राज्य के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडरों और लोक कलाकारों के लिए शुरु की गई है। पात्रता के मापदंड 01. राजस्थान का स्थायी निवासी 02. स्ट्रीट वेंडर एक्ट के तहत पंजीकृत 03. श्रम पोर्टल पर पंजीयन हो 04. आयु सीमा— 18 से 45 वर्ष
13	राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत आयु का साक्ष्य किससे माना गया है ?	केवल कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई प्रविष्टि (राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम 1998 का नियम 25)
14	बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत देय लाभों का भुगतान कब एवं किन-किन परिस्थितियों में देय है ?	परिपक्वता/मृत्यु/अध्यर्पण राशि का योजना के अन्तर्गत निम्न परिस्थितियों में भुगतान देय है— 1— बीमेदार की मृत्यु होने पर उसके मनोनित को 2— पॉलिसी की परिपक्वता तिथि पर बीमेदार को 3— पॉलिसी की परिपक्वता तिथि से पूर्व राज्य सेवा छोड़ने या उसे सेवा से अलग कर दिये जाने पर उसके द्वारा अन्य किसी विकल्प को न चुनने की स्थिति में बीमेदार को अध्यर्पण राशि का भुगतान किया जाता है।
15	बीमाधन की गणना का आधार क्या है ?	राज्य बीमा पॉलिसियों के बीमाधन की गणना हेतु योजना में बीमेदार की प्रविष्टि पर आयु हेतु गुणक निर्धारित हैं। बीमेदार की आगामी वर्षगांठ पर आयु से संबंधित गुणांक को उसके द्वारा देय मासिक प्रीमियम से गुणा कर बीमाधन निर्धारित किया जाता है। उदाहरणार्थ — आयु 25, गुणांक 488, मासिक प्रीमियम 1200 $1200 \times 488 = 585600$ बीमाधन
16	प्रावधानी निधि योजना में मनोनीत पर खातेदार की हत्या अथवा हत्या के लिए प्रेरित करने का आरोप सिद्ध होने पर, प्रावधानी निधि खाते में जमा राशि का भुगतान किसे किया जावेगा ?	परिवार के अन्य सदस्यों को
17	जीपीए योजना (राज्यकर्मी) के अन्तर्गत अधिकतम प्रीमियम राशि एवं बीमाधन कितना है ?	प्रीमियम 2100 एवं बीमाधन 30 लाख रुपये
18	फिडिलिटी इश्योरेंस के तहत स्टोर कीपर एवं कैशियर के लिए अधिकतम कितनी राशि का बीमा किया जाता है ?	स्टोरकीपर — 20,000 कैशियर — 50,000
19	क्या समूह दुर्घटना बीमा(राज्यकर्मी) योजना अन्तर्गत प्रीमियम कटवाया जाना अनिवार्य है ?	वर्तमान में अनिवार्य नहीं है।
20	मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में किन दुर्घटनाओं में योजना का लाभ देय है ?	(i) सड़क दुर्घटनाएँ रेल दुर्घटना एवम् वायु दुर्घटना से होने वाली मृत्यु / क्षति। (ii) बीमित के ऊँचाई से गिरने तथा बीमित पर ऊँचाई से किसी वस्तु के गिरने के कारण होने वाली मृत्यु क्षति।

		(iii) मकान के ढहने से होने वाली मृत्यु क्षति । (iv) डूबने के कारण होने वाली मृत्यु क्षति । (v) रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण । (vi) बिजली के झटके से होने वाली मृत्यु/ क्षति (vii) जलने से होने वाली मृत्यु/ क्षति (Viii) मशीन पर कार्य करते हुए होने वाली क्षति
21	प्रावधायी निधि योजना के अन्तर्गत खाताधारक कितनी सेवा अवधि पूर्ण करने पर 40 प्रतिशत आहरण हेतु योग्य होगा ?	25 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर
22	प्रावधायी निधि योजना में ऑटो आहरण हेतु अधिकतम राशि है?	90 प्रतिशत (अभिदाता की अधिवार्षिकी सेवानिवृत्ति से 60 माह अथवा उससे कम होने पर)
23	यदि किसी कार्मिक द्वारा विवाह पूर्व अपनी माता को मनोनीत किया है। और 28.11.2021 को उसकी मृत्यु हो जाती है तो कार्मिक की जीपीएफ राशि का भुगतान किसे देय होगा?	अभिदाता द्वारा विवाह पूर्व किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किया गया नाम निर्देशन विवाह पश्चात् नया मनोनयन नहीं करने की स्थिति में उसके पति/पत्नि के पक्ष में स्वतः ही किया हुआ समझा जायेगा।
24	प्रावधायी निधि खाते में सेवानिवृत्ति पश्चात् कौन-कौनसे सेवानिवृत्ति परिलाभ जमा करवाये जा सकते हैं ?	प्रावधायी निधि, राज्य बीमा पॉलिसी, ग्रेच्युटी, कम्प्यूटेशन, एवं उपाजित अवकाश नगद भुगतान
25	किस नियम के तहत बीमेदार अपनी राज्य बीमा पॉलिसी को विस्तारित कर सकता है ?	राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम, 1998 का नियम 39 (2)
26	राज्य बीमा पॉलिसी को विस्तारित करने पर बीमेदार को कौनसे लाभ देय हैं?	01. विस्तारित अवधि के बोनस का भुगतान 2. मृत्यु की स्थिति में बीमाकृत राशि का दुगुना भुगतान
27	बीमेदार को अधिक घोषणा पत्र कब भरना होता है ?	अतिरिक्त प्रीमियम (स्वैच्छा से) के संदाय हेतु नियम 11 (02) के अधीन अधिक घोषणा पत्र भरना अनिवार्य हैं।
28	सेवा में नहीं रहने की स्थिति में बीमा पॉलिसी के लिए कर्मचारियों को क्या विकल्प उपलब्ध है ?	राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम, 1998 का नियम 42 (1) परिपक्वता तिथि से पूर्व सेवा में नहीं रहने पर 06 माह के भीतर निम्न में से एक विकल्प चयनित करना होगा – 01. पॉलिसी को परिपक्वता तिथि तक जारी रखना 02. नगद अध्यर्पण मूल्य लेना 3. परिदत्त बीमा लेना जो आगे प्रीमियमों के संदाय से मुक्त हो।
29	सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना के तहत दुर्घटना में एक हाथ पृथक होने पर कितनी राशि का भुगतान देय है ?	बीमाधन का 50 प्रतिशत
30	मुख्यमंत्री पशुमंगला बीमा योजना के अन्तर्गत ग्रेस पीरियड क्या है ?	बीमा होने से 21 दिवस

31	बीमा ऋण में पेनल ब्याज किन परिस्थितियों में लिया जाता है ?	पेनल ब्याज बीमा ऋण के बकाया ब्याज पर लिया जाता है। 01. यदि बीमा ऋण 36/60 माह में या इससे अधिक में पूर्ण होता है तो 36/60 माह + 10 माह तक 02. यदि बीमा ऋण 36/60 माह से पूर्व पूर्ण जमा करा दिया जाता है तो अन्तिम कटौती +10 माह तक
32	यदि कोई जीपीएफ खातेदार का 01.04.2025 का ओपनिंग बैलेन्स 12 लाख रु. है एवं वह अप्रैल 2025 में 2 लाख रु. ऑटो आहरण से प्राप्त कर चुका है, अब यदि वह 75 प्रतिशत आहरण करना चाहता है तो उसकी 75 प्रतिशत आहरण योग्य राशि क्या होगी ?	01/04/2025 OB =1200000 75% = 900000 200000Auto Eligible Amt =700000
33	यदि किसी सेवानिवृत्त कार्मिक ने रिटायर्ड जीपीएफ खाता खुलवा रखा है, खाता खुलवाने के एक वर्ष पश्चात पेंशनर को ग्रेच्युटी की एरियर राशि मिलती है तथा वह खातेदार अपनी ग्रेच्युटी एरियर को भी रिटायर्ड जीपीएफ खाते में जमा करवाना चाहता है। इस परिस्थिति में क्या प्रक्रिया रहेगी ?	एसआईपीएफ पोर्टल पर एरियर राशि यूनिट हेड के लॉगिन से सेवानिवृत्त कार्मिक के जीपीएफ खाते में निम्नानुसार जोड़ी जाएगी— Account Re-Open → Edit Account Re-Open
34	यदि एक 35000 रु. का जीपीएफ चालान दिनांक 27.05.2015 को बैंक में जमा करवाया गया परन्तु वह कार्मिक की लेजर में प्रदर्शित नहीं हो रहा है, उसको किस प्रकार से लेजर में प्रदर्शित करवाया जा सकता है ?	वर्तमान में केवल यूनिट हेड के लॉगिन से क्रेडिट/डेबिट पोस्टिंग के माध्यम से
35	यदि किसी भी प्रकार का टास्क जैसे कि <u>ऋण/आहरण/क्लेम/प्रथम</u> घोषणा पत्र किसी डीलिंग असिस्टेंट के पेण्डिंग टास्क में उपलब्ध नहीं हो रहा है तो ज़िला स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही क्या है ?	01. सर्वप्रथम यह जांच कि जावे कि संबंधित प्रकरण डीलिंग असिस्टेंट को आवंटित किया गया है अथवा नहीं। 02. यह जांच कि जावे कि संबंधित को योजना आवंटित है या नहीं। 03. यह जांच कि जावे कि सर्विस डिटेल में सभी विवरण पूर्ण है अथवा नहीं। 04. यह जांच कि जावे कि कार्मिक का खाता अनफ्रीज है ?
36	किसी चालान को किस प्रकार से पहचानेंगे कि वह एसआईपीएफ पोर्टल के द्वारा निर्मित है अथवा नहीं ?	जीआरएन वेरिफाई करे 01. यदि बिल नम्बर प्राप्त होता है तो चालान एसआईपीएफ पोर्टल से निर्मित है। 02. यदि बिल नम्बर 0 प्रदर्शित होता है तो चालान एसआईपीएफ पोर्टल से निर्मित नहीं है।
37	एक एमबीबीएस डॉक्टर की जन्म तिथि 15.05.1992 है, पोर्टल पर उसकी राज्य बीमा की परिपक्वता तिथि 01.04.2052 दिख रही है जबकि 01.04.2054 दिखनी चाहिये। कारण एवं समाधान बताएं।	कार्मिक की श्रेणी सर्विस डिटेल में " स्टेट सर्विस " के स्थान पर "62 वर्ष " की जावे।
38	दो जुड़वां भाई हैं और दोनों की नियुक्ति अगस्त 2024 में हो गयी है। एक की नियुक्ति सीएचसी में चिकित्सक के पद पर व दूसरे की नियुक्ति महाविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर के रूप हुई है। नियमानुसार दोनों की राज्य बीमा प्रीमियम कब के वेतन से कटना प्रारम्भ होगी ?	नियुक्ति तिथि= अगस्त 2024 डॉक्टर: परीक्षा =01 वर्ष, परीक्षा पूर्ण होने बाद मार्च 2026 इतिहास प्रोफेसर = 02 वर्ष, परीक्षा पूर्ण होने के बाद मार्च 2027
39	राज्य बीमा पॉलिसी की परिपक्वता होने पर परिपक्वता तिथि से पहले किस दिनांक को एसआईपीएफ पोर्टल पर एक्सटेंड पॉलिसी के आप्शन को बन्द कर दिया जाता है ?	परिपक्वता तिथि से 15 दिवस पूर्व अर्थात् 16 मार्च से

40	ऑटो विद्वहल अथवा ऑटो ःरण की पोस्ट ऑडिट करने पर ज्ञात होता है कि प्रकरण में अधिक भुगतान होने जा रहा है, तो उस प्रकरण का पेमेण्ट कैंसिल करवाने की निर्धारित प्रक्रिया क्या है ?	01. जिला कार्यालय को योजना प्रभारी को मेल करना होगा। 02. योजना प्रभारी को सिस्टम एस.ए. को मेल करना होगा। 03. सिस्टम भुगतान रद्द करने के लिए डीटीए मेल भेजता है।
41	राज्य बीमा ःरण को अप्लाई करते समय यदि एलिजिबल अमाउण्ट शून्य आता है एवं कोई अन्य मैसेज भी प्रदर्शित नहीं होता है तो इसके क्या सम्भावित कारण हो सकते हैं ?	01. एक भी फरदर कॉन्ट्रेक्ट नहीं है। 02. श्रेणी/उप श्रेणी फील्ड रिक्त है।
42	यदि किसी भुगतान में ईसीएस फेल हो जाता है तो कार्मिक/मनोनीत को भुगतान करवाने के लिये ज़िला स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही क्या है ?	एसआईपीएफ पोर्टल पर यूनिट हेड की आईडी से Payment → ECS Report with uploading the cancelled cheque.